

**Fulchand's
142 Gyaan Deepak ! Bodhamrut**

१४२ ज्ञान दीपक ! बोधामृत ۱۴۲ چنان دیپک ! بودھا موت

142 Divine Aphorisms for the Lamp of Knowledge



Fulchand is a compassionate spiritual master who has devoted his life to spread Omniscient preaching around the world through thousands of discourses and several books. Soul seekers who wish to be free from false belief and ignorance can get enlightened in the presence of Fulchand's flame of knowledge.

કરુણા સાગર આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શક ફૂલચંદ ને સંપૂર્ણ પૃથ્વી પર હજારો ઘંટોં કે પ્રવચનો એવં અનેક પુસ્તકોં કે માધ્યમ સે વીતરાગવાળી કા પ્રચાર-પ્રસાર કર અપના જીવન સમર્પિત કિયા હૈ. જો આત્મખોજી મિથ્યાત્વ એવં અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર સે મુક્ત હોના ચાહતે હોં, વે ફૂલચંદ કી પ્રજ્વલિત જ્ઞાનજ્યોતિ કે સાનિધ્ય મેં રહકર અપની ભી જ્ઞાનજ્યોતિ પ્રજ્વલિત કર સકતે હોં।

કરુણા સાગર આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શક ફૂલચંદ, જે મણે સંપૂર્ણ પૃથ્વી પર હજારો કલાકોના પ્રવચનો તથા અનેક પુસ્તકોના માધ્યમથી વીતરાગવાણીનો પ્રચાર-પ્રસાર કરીને પોતાનું જીવન સમર્પિત કરેલ છે. જે આત્મખોજી મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી મુક્ત થવા ઈચ્છિતા હોય, તેઓ ફૂલચંદની પ્રજ્વલિત જ્ઞાનજ્યોતિના સાનિધ્યમાં રહીને પોતાની પણ જ્ઞાનજ્યોતિ પ્રજ્વલિત કરી શકે છે.



૧૪૨ જ્ઞાન દીપક ! બોધામૃત
142 ज्ञान दीपक ! बोधामृत

142 GYAAN DEEPAK ! BODHAMRUT

142 Divine Aphorisms for the Lamp of Knowledge

ફૂલચંદ | ફૂલચંદ | FULCHAND

First Edition : 23 November, 2018
(Shrimad Rajchandra's 151st birth anniversary)

PUBLISHER & AVAILABLE AT :

Adhyatmik Sadhana Kendra

Umarala – 364 330.

Dist. : Bhavnagar, Gujarat, India

Phone : +91-2843-235202/3

Mobile : +91-9898245201

Email : ask@fulchandshastri.com

Website : www.fulchandshastri.com

Design & Printed : MULTY GRAPHICS
18, Khotachi Wadi, Vardhman Bldg., 3rd Floor,
Prathana Samaj, V. P. Raod, Mumbai 400 004.
Phone : 2387 3222 / 2388 4222
Email : support@multygraphics.com
Website : www.multygraphics.com





समस्त प्रज्वलित ज्ञान दीपकों
सविनय समर्पित...

समस्त प्रज्वलित ज्ञान दीपकों को
सविनय समर्पित...

Dedicated to...

All Illuminated Lamps of Knowledge



પ્રકાશકીય...

આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્ર ઉમરાળા, ફૂલચંદ દ્વારા રચિત '૧૪૨ જ્ઞાન દીપક ! બોધામૃત'નું - ગુજરાતી, હિન્દી તથા અંગ્રેજીમાં ત્રિભાષીય પ્રકાશન કરતા અત્યંત હર્ષ અનુભવે છે. ૧૪૨ જ્ઞાન દીપક ! બોધામૃત તથા લક્ષણ પર ફૂલચંદના લગભગ ૩૦૦ કલાકના હિન્દી પ્રવચનો ASK UMARALA YouTube channel પર ઉપલબ્ધ છે.

પ્રકાશકીય...

આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્ર ઉમરાલા, ફૂલચંદ દ્વારા રચિત '૧૪૨ જ્ઞાન દીપક ! બોધામૃત' કા - ગુજરાતી, હિન્દી એવં અંગ્રેજી મેં ત્રિભાષીય પ્રકાશન કરતે હુયે અત્યંત હર્ષ કા અનુભવ કરતા હૈ। ૧૪૨ જ્ઞાન દીપક ! બોધામૃત એવં લક્ષણ પર ફૂલચંદ કે કરીબ ૩૦૦ ઘણ્ટોને હિન્દી પ્રવચન ASK UMARALA YouTube channel પર ઉપલબ્ધ હૈ।

PUBLISHER'S NOTE...

Adhyatmik Sadhana Kendra Umarala, is greatly pleased to publish Fulchand's tri-lingual '142 Gyaan Deepak ! Bodhamrut' in - Gujarati, Hindi and English. About 300 hours of Fulchand's Hindi discourses on Gyaan Deepak ! Bodhamrut and Lakshan are available on ASK UMARALA YouTube channel to understand its essence.

પ્રસ્તાવના

ચંદ ગુરુદેવે (અસુઅ) અલ્પવિશ્વથી સંપૂર્ણ વિશ્વમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રચાર તથા આત્મજ્ઞાગૃતિનો પ્રયોગ સમજાવવા અર્થે પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું છે. તેઓ આત્મનુભૂતિરૂપી કિરાણો વડે મોકષમાર્ગને સતત પ્રકાશિત કરી રહ્યા છે. તેમણે આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્ર, ઉમરાળામાં કોઈ પણ પ્રકારના બેદભાવ વિના ‘જ્ઞાન દીપક ! પ્રજ્વલન આત્મસાધના’ થકી સંસારીથી સિદ્ધ થવાનો અપૂર્વ અવસર પ્રદાન કર્યો છે. તેમણે શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ તેમજ તત્ત્વવિચારથી શુદ્ધાત્માના ધ્યાનનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું તે બદલ તેમનો અનંત ઉપકાર છે.

કુવૈતમાં માત્ર ૧ કલાક ૪૨ મિનિટમાં મૂળ ગુજરાતી ભાષામાં રચયેલ ‘૧૪૨ જ્ઞાન દીપક ! બોધામૃત’ ગુરુદેવની અસીમ કૃપાનો ભરેલો અમૃત ઘડો છે. ગુજરાતી ઉપરાંત હિન્દી તથા અંગ્રેજી ભાષામાં થયેલા અનુવાદ સહિત છાપેલો આ નિભાષીય ગ્રંથનો વધુમાં વધુ વાચકો લાભ લઈ શકશે. ૧૪૨ ટચ્યુકડા સુવાક્યોમાં માર્ભિક રહુસ્ય ગર્ભિત છે. પ્રત્યેક બોધામૃત દૈનિક જીવનમાં ઘટતા પ્રસંગોમાં તથા પોતાનો યથાયોગ્ય વ્યવહાર કરતી વેળા બેદવિજ્ઞાનની કળા શીખવાઓ છે. ગુરુદેવે ‘૧૪૨ જ્ઞાન દીપક ! બોધામૃત’ નો ગાહણ આશાય સમજાવતા દરેક બોધામૃત તથા લક્ષણો ઉપર ૧૪૨ દિવસોમાં લગભગ ૩૦૦ કલાકના પ્રવચનો વડે જ્ઞાન પ્રભાવના કરી છે. જે વાચક આ ગ્રંથમાં વસેલો પરમાર્થ ગ્રહણ કરશે, તે નિરંતર વહેતી ચિંતનધારાના ફળમાં નિશ્ચિતરૂપે અંતરંગ દર્શાયાં ઉન્નતિ તેમજ આત્મિક શાંતિ અનુભવશે. ગુરુદેવે પ્રત્યેક બોધામૃત સાથે જ્ઞાન દીપકના લક્ષણનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. પ્રત્યેક જીવ ૧૪૨ જ્ઞાન દીપક લક્ષણોને પોતાના આત્મામાં પ્રગટ કરીને પોતાનો જ્ઞાન દીપક પ્રજ્વલિત કરી શકે છે.

જ્ઞાન દીપકો આ શાસ્ત્રનો પ્રતિદિન નિત્યકમ રૂપે પાઠ કરીને શબ્દોની પાર રહેલા ભાવોને વાગોળશે. ગુરુદેવની આ કરુણામયી રચના થકી સર્વ વાચકોને સ્વરૂપસિદ્ધની અભિલાષા જાગે અને પુરુષાર્થ થકી સત્ત્વાદ્રા પ્રગટ થાય તેવી પ્રાર્થના કરું છું. સર્વ જીવો અનંતકાળ સુધી પરમ આનંદભવનમાં બિરાજમાન થાય, તેવી મંગળ ભાવના ભાવું છું.

- દીપા, સિંગાપુર

प्रस्तावना

चंद गुरुदेव ने (असु ने) अल्पवय से संपूर्ण विश्व में तत्त्वज्ञान का प्रचार एवं आत्मजागृति का प्रयोग समझाने हेतु अपना जीवन समर्पित किया है। आप आत्मानुभूतिरूपी किरणों से मोक्षमार्ग को निरंतर प्रकाशित कर रहे हैं। आपने आध्यात्मिक साधना केन्द्र, उमराला में किसी भी प्रकार के भेदभाव बिना 'ज्ञान दीपक! प्रज्वलन आत्मसाधना' द्वारा संसारी से सिद्ध होने का अपूर्व अवसर प्रदान किया है। आपने शुद्धात्मा का स्वरूप एवं तत्त्वविचार से शुद्धात्मा के ध्यान का स्वरूप समझाया हैं, अतः आपका अनंत उपकार हैं।

कुवैत में मात्र १ घण्टा और ४२ मिनट में मूल गुजराती भाषा में रचित '१४२ ज्ञान दीपक! बोधामृत' गुरुदेव की असीम कृपा से भरा हुआ अमृत घड़ा है। गुजराती के अतिरिक्त हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में हुए अनुवाद सहित मुद्रित इस त्रिभाषीय ग्रंथ का अधिक से अधिक पाठक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। १४२ संक्षिप्त सुवाक्यों में मार्मिक रहस्य गर्भित है। प्रत्येक बोधामृत दैनिक जीवन में घटित होने वाले प्रसंगों में एवं अपना यथायोग्य व्यवहार पालन करते समय भेदविज्ञान की कला सिखाता है। गुरुदेव ने '१४२ ज्ञान दीपक ! बोधामृत' का गहन आशय समझाते हुए प्रत्येक बोधामृत एवं लक्षण पर १४२ दिनों में करीब ३०० घण्टों के प्रवचनों द्वारा ज्ञानप्रभावना की हैं। जो पाठक इस ग्रंथ में बसे हुए परमार्थ को ग्रहण करेंगे, वे निरंतर बहती चिंतन धारा के फल में निश्चितरूप से अंतरंग दशा में उन्नति एवं आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे। गुरुदेव ने प्रत्येक बोधामृत के साथ ज्ञान दीपक के लक्षण का स्वरूप समझाया हैं। प्रत्येक जीव १४२ ज्ञान दीपक लक्षणों को अपने आत्मा में प्रकट करके अपना ज्ञान दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं।

ज्ञान दीपक इस शास्त्र का प्रतिदिन नित्यक्रम रूप में पाठ करके शब्दो से पार रहते भावों की जुगाली करेंगे। गुरुदेव की इस करुणामयी रचना से सर्व पाठकों को स्वरूप सिद्धि की अभिलाषा जागे और पुरुषार्थ के माध्यम से सत्श्रद्धा प्रकट हो ऐसी प्रार्थना करती हूँ। समस्त जीव अनंतकाल तक परम आनंदभवन में विराजमान हो, ऐसी मंगल भावना भाती हूँ।

- दीपा, सिंगापुर

PREFACE

Chand Gurudev (Asu), since a tender age, has dedicated his entire life to share spiritual knowledge and to preach the practice of Soul awareness, worldwide. He has been constantly illuminating the path to liberation with his rays of enlightenment. At Adhyatmik Sadhana Kendra Umarala, he has offered without any discrimination, an invaluable opportunity to journey from bondage to liberation by putting in tremendous effort to illuminate the lamp of knowledge. He has preached the nature of the pure soul as well as the nature of Soul meditation through Soul contemplation. His obligation is immense.

He has compassionately filled a pot of divine nectar by composing '142 Gyaan Deepak ! Bodhamrut' in Kuwait, in merely 1 hour and 42 minutes, in Gujarati language. This tri-lingual published scripture contains translations in English and Hindi languages to benefit maximum soul seekers. These 142 brief aphorisms comprise deep essence. Each of the 142 aphorisms teaches the art of Soul separation while performing daily routine. The secrets behind each of the 142 aphorisms have been deeply explained in 142 days in almost 300 hours of discourses. Those who imbibe and contemplate on the divine preaching shared in this holy scripture, shall certainly experience upliftment of the Soul's state and inner peace. Along with the 142 aphorisms, he has also explained the nature of the characteristics of an enlightened soul. Each soul has the potential to manifest these 142 virtues and illuminate their lamp of knowledge.

Soul seekers may ruminate on the message contained in this scripture for their daily spiritual practice. I pray that all readers shall aspire to realize their soul and manifest right belief through sincere effort. May all souls attain Self-realization and reside at the abode of supreme inner bliss.

- Deepa, Singapore

જ્ઞાન દીપક ! બોધામૃત
જ્ઞાન દીપક ! બોધામૃત
Gyaan Deepak ! Bodhamrut
(Divine Aphorisms for the Lamp of Knowledge)

જ્ઞાન દીપક ! લક્ષણ
જ્ઞાન દીપક ! લક્ષણ
Gyaan Deepak ! Lakshan
(Characteristics of the Lamp of Knowledge)



| 1 |

आत्मसिद्धि विना आत्मा देहने नहीं छोड़े।
आत्मसिद्धि के बिना आत्मा देह को नहीं छोड़ेगा।

The soul shall not leave the body
without attaining Self-realization.

आत्मार्थी

आत्मार्थी

Atmarathi

Soul seeker



| 2 |

एकांतवादी बनीश नहीं।
एकांतवादी मत होना।

Do not become a one-sided believer.

અનેકાંતવાદી

अनेकांतवादी

Anekantvadi

Knower of multiple viewpoints



| 3 |

જીવનસાથી સિવાય અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ સામે
કાયાનું પ્રદર્શન કરીશ નહોં.

જીવન સાથી કે અતિરિક્ત અન્ય કિસી ભી વ્યક્તિ કે સામને
કાયા કા પ્રદર્શન કરના નહોં।

Do not expose your body to anyone
except your life partner.

સ્વરૂપસાથી

સ્વરૂપસાથી

Svarup-saathi

Companion of one's own self



| 4 |

ગુરુદેવ સિવાય કોઈને પણ મનની વાત કરીશ નહોં.
ગુરુદેવ કે અતિરિક્ત કિસી કો ભી મન કી બાત મત કરના।

Do not share your heart's feelings with anyone
except the enlightened mentor (Gurudev).

સમર્પિત

સમર્પિત

Samarpit

Dedicated to illuminated lamp of knowledge

॥ 5 ॥

હવે ગુરુદેવ અહીં નથી, એવું જાણનાર જ્ઞાન સદાય હાજર છે,
જ્ઞાન સ્વભાવી જ્ઞાયકનો આશ્રય લઈને
ગુરુદેવના વિરહનું વિસ્મરણ થઈ જશે.

અબ ગુરુદેવ યહાઁ નહીં હૈન, એસા જાનને વાળા જ્ઞાન સદૈવ હાજિર હૈ,
જ્ઞાન સ્વભાવી જ્ઞાયક કા આશ્રય લેકર
ગુરુદેવ કે વિરહ કા વિસ્મરણ હો જાયેગા।

Gurudev is not here now, however,
the knowledge that knows this is always present,
Gurudev's absence will not be felt,
by being engrossed in this knowledgeable Soul.

સ્વસ્તિંમુખી **સ્વસ્તિંમુખી** **Swastimukhi**

Soul facing



॥ 6 ॥

જેમ કંકુ વિના ચોખા કપાળ ઉપર ચોંટતા નથી,
તેમ ગુરુદેવના કોધ વિના ગુરુદેવના ચોખા શબ્દો શિષ્યને સ્પર્શતા નથી.

जैसे कुमकुम के बिना चावल ललाट पर चिपकते नहीं हैं,
ऐसे ही गुरुदेव के क्रोध के बिना गुरुदेव के साफ शब्द शिष्य को स्पर्श करते नहीं।

Just as rice grains do not stick to the forehead
without red vermillion,
even the plain words of Gurudev are not felt by a disciple without his anger.

દાસાનુદાસ **દાસાનુદાસ** **Dasanudas**

Ardent devotee

॥ 7 ॥

द्रव्य सत् छे, पर्याय सती छे. सती साथे छेड़भानी करीश नहीं.

द्रव्य सत् है, पर्याय सती है। सती के साथ छेड़छाड़ मत करना।

Substance is eternal, its modification is momentary.

Do not put in effort to change the modification.

सत्संगी (निश्चय) सत्संगी (निश्चय) Satsangee (Nishchaya)

Companion of eternal truth



॥ 8 ॥

आंकडाशास्त्री थवानी मायाजागमां फँसावुं नहीं.

अंकशास्त्री होने की मायाजाल में मत फँसना।

Do not get stuck in the trap of being a numerologist.

अध्यात्मवेता अध्यात्मवेता Adhyatma-vetta

Spiritual Knower

॥ 9 ॥

ગુરુદેવ સામે કુશંકા કરીશ નહીં.
ગુરુદેવ કે સામને કુશંકા મત કરના।

Do not ask false doubts to Gurudev.

નિઃશંક

નિઃશંક

Nihshank

Free from doubts



॥ 10 ॥

આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવી છે,
આત્મજ્ઞાની થવા ચીધેલી આંગળી એ જ ગુરુની આજા。
આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવી હૈ,
આત્મજ્ઞાની હોને હેતુ નિર્દિષ્ટ અંગુલી યહી ગુરુ કી આજા।

Soul's nature is knowledge,
Gurudev's pointed finger is his order
for realization of one's own Soul.

આજાકારી

આજાકારી

Aagyakaari

Obedient disciple



ગુરુદેવના મરણના સમાચાર ભળે, તો એમ વિચારવું કે
આ સમાચાર ખોટા છે, કારણ કે ગુરુદેવ તો અમર છે.

ગુરુદેવ કી મૃત્યુ કે સમાચાર મિલે, તો એસા વિચાર કરના કિ
યહ સમાચાર ઝૂઠે હૈ, ક્યાંકિ ગુરુદેવ તો અમર હૈને।

When you get the news of Gurudev's demise,
contemplate that it is false news,
because Gurudev is eternal.

અમૃતદ્રષ્ટી

અમૃતદ્રષ્ટી

Amrutdrashti

Invincible believer



ગુરુદેવના અનિસંસ્કારમાં દાજરી આપ્યા પહેલા પોતાનું ઘર સંભાળજે.
ગુરુદેવ કે અનિસંસ્કાર મેં ઉપસ્�િત હોને સે પહલે અપના ઘર સમ્હાલના।

Take care of your family responsibilities
before attending Gurudev's funeral.

મોહદાહક

મોહદાહક

Mohdaahak

Destroyer of worldly attachment

ગુરુદેવના વચનામૃત જ ગુરુદેવ છે,
તેથી રાખની દીવાલના વિરહુમાં નિરાશ થવું નહું.

ગુરુદેવ કે વચનામૃત હી ગુરુદેવ હૈને,
ઇસલિએ રાખ કી દીવાર કે વિરહ મેં નિરાશ મત હોના।

Gurudev's preaching is Gurudev himself,
so do not be disappointed
in the absence of his body (Ashwall).

શ્રુતસાગર

Shrutsaagar

Ocean of knowledge



પર્વના શુભદિને અવશ્ય સંયમપૂર્વક જીવન જીવતું.
પર્વ કે શુભ દિન અવશ્ય સંયમ પૂર્વક જીવન જીના।

Live a life with self-restraint on auspicious festive days.

સંયમી

Sanyami

Abstinent



॥ 15 ॥

ગુરુદેવ સામે દોઢ ડહાપણ કરવું નહીં.

ગુરુદેવ કે સામને અધિક બુદ્ધિમત્તા મત દિખાના।

Do not act over smart in front of Gurudev.

પૂર્ણદૃષ્ટિ

પૂર્ણદૃષ્ટિ

Purna-drashtee

Believer of fullness of the Soul



॥ 16 ॥

દરેક વ્યક્તિ સાથે વિનમ્રતાપૂર્વક વર્તન કરવું.

પ્રત્યેક વ્યક્તિ કે સાથ વિનમ્રતા પૂર્વક વર્તન કરના।

Behave politely with everyone.

વિનમ્ર

વિનમ્ર

Vinamra

Polite

માંયા વિના સલાહ આપવી નહીં.

માંગે બિના સલાહ મત દેના।

Do not advise unless asked.

કૃપાળુ

કૃપાલુ

Krupalu

Compassionate



પ્રત્યક્ષ ગુરુદેવના સમાગમમાં થતો સત્સંગ પારસમાણી છે.

પ્રત્યક્ષ ગુરુદેવ કે સમાગમ મેં હોને વાલા સત્સંગ પારસમણી હૈ।

Soul study in the direct presence of Gurudev
is like touchstone (converts iron into gold).

સત્સંગી (વ્યવહાર) સત્સંગી (વ્યવહાર) Satsangee (Vyavahar)

One who listens to discourses
of an enlightened mentor



॥ 19 ॥

ખરાબ વિચારોને અવકાશ મળો, એવી પરિસ્થિતિથી બચવું.
બુરે વિચારોં કો અવકાશ મિલે, ઐસી પરિસ્થિતિ સે બચના।
Avoid situations that give room to bad thoughts.

સ્થિતપ્રગા

स्थितप्रगत

Sthitpragya

Still in Knowledge



॥ 20 ॥

ગુરુદેવનું હિત કરવા નહીં, પણ નિજહિત અર્�ે ગુરુદેવની સેવા કરવી。
ગુરુદેવ કા હિત કરને નહીં, પરન્તુ નિજહિત અર્થ ગુરુદેવ કી સેવા કરના।

Do not serve Gurudev to oblige him,
but serve with the purpose of self-upliftment.

સેવક

सेवक

Sevak

Volunteer

॥ 21 ॥

भक्ति करवी, पाणि भक्तिनुं प्रदर्शन नहीं।

भक्ति करना, परन्तु भक्ति का प्रदर्शन नहीं।

Do worship, but do not blow the trumpet of worship.

भक्त

भक्त

Bhakt

Devotee



॥ 22 ॥

व्यक्तिने नहीं, पाणि स्वरूपने प्रधानता आपवी।

व्यक्ति को नहीं, परन्तु स्वरूप को प्रधानता देना।

Give importance to the truth, not to the person.

स्वरूपप्रधानी

स्वरूपप्रधानी

Svarup-pradhaani

Soul prioritizer



| 23 |

દીકરીની જેમ દીકરા પાસેથી પણ આશા રાખીશ નહીં.

बेटी की तरह बेटे से भी आशा मत रखना।

Do not have expectations from
both son and daughter alike.

निरपेक्ष

निरपेक्ष

Nirpeksh

Free from expectations



| 24 |

વैરाग्य પાક્યા વિના દીક્ષા ગ્રહણ કરીશ નહીં.

वैરाग्य પરિપક્વ હુએ બિના દીક્ષા ગ્રહણ મત કરના।

Do not adopt monkhood until detachment manifests.

वैરाग्यदीक्षित | Vairagya-dikshit

Detached monk

॥ 25 ॥

अन्य साधकोंनी गुरुभक्ति देखीने ईर्ष्या करीश नहीं।

अन्य साधकों की गुरुभक्ति देखकर ईर्ष्या मत करना।

Do not envy the devotion of other devotees towards Gurubhakt.

ગુણગ્રાહી

गुणग्राही

Guna-graahi

Absorber of virtues



॥ 26 ॥

जोशमां नहीं, पाण होशमां रहीने प्रतिज्ञा लेवी।

जोश में नहीं, परन्तु होश में रहकर प्रतिज्ञा लेना।

Pledge with awareness, not with impusle.

प्रत्याख्यानद्रष्टा

प्रत्याख्यानद्रष्टा

Pratyakhyaan-drashtaa

Observer of renunciation



મોટી લડાઈ જતવા માટે નાની લડાઈ હારી જજે.

बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई हार जाना।

Let go of smaller battles in order to win the bigger battle.

મોહજ્યી (દર્શનમોહ) **મોહજ્યી (दर्शनमोह)** **Moha-jayee (Darshan Moha)**

Winner of belief deluding karma



કુગુરુને પણ દ્વેષભાવથી છોડીશ નહોં.

કુગુરુ કો ભી દ્વેષ ભાવ સે મત છોડના।

Do not leave an unenlightened mentor too,
with feelings of hatred.

દ્રવ્યદ્રષ્ટી

द्रव्यदृष्टी

Dravya-drashtee

Visionary of the Soul

॥ 29 ॥

તें आग्रह छोड़यो, तो तने गुरुदेव मण्या,
उवे गुरुदेवने पाण छोड, भगवान भण्शे.

तूने आग्रह छोड़ा, तो तुझे गुरुदेव मिले,
अब गुरुदेव को भी छोड़, भगवान मिलेंगे।

You gave up persistence, you met Gurudev,
now leave Gurudev too, you will attain God.

अशरण

अशरण

Asharan

Independent



॥ 30 ॥

ज्ञानना अहंकारने भक्ति वडे दूर करजे.

ज्ञान के अहंकार को भक्ति द्वारा दूर करना।

Dissolve the pride of knowledge with devotion.

मार्गानुसारी

मार्गानुसारी

Margaanusari

Follower of the path to liberation



॥ 31 ॥

અપરાધીના વકીલ બનવું નહીં.

અપરાધી કા વકીલ બનના નહીં।

Do not be the lawyer of a criminal.

ન્યાયપ્રિય

न्यायप्रिय

Nyaya-priya

Impartial



॥ 32 ॥

ગુરુદેવ દર્પણ છે, પણ આંખ પોતાની જોઈએ.

ગુરુદેવ દર્પણ હૈનું, માર આંખ અપની ચાહિએ।

Gurudev is a mirror, but one's own eyes are needed.

જ્ઞાનદર્પણ

ज्ञानदर्पण

Gyaandarpan

Mirror of Knowledge

॥ 33 ॥

કોઈને પણ એવા જ વચન આપજે, જેને પાળવાની શક્તિ હોય.
કિસી કો ભી એસે હી વચન દેના, જિસે નિભાને કી શક્તિ હો।
Make only those promises that you are able to keep.

મૌનાભિલાષી મૌનાભિલાષી **Moun-abhilaashi**

Seeker of silence



॥ 34 ॥

ચોરી કરીને દાન આપવું નહીં.
ચોરી કરકે દાન મત દેના।

Do not donate anything that is stolen.

જ્ઞાનદાની જ્ઞાનદાની **Gyaandani**

Preacher of knowledge

॥ 35 ॥

ક્ષણિકનો બોધ થવા માટે જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉપયોગી બને છે.
ક્ષणિક કા બોધ હોને કે લિએ જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન ઉપયોગી હોતા હૈ।

Recalling the past is beneficial
to have wisdom of the transient.

स्वयंसिंघ

स्वयंसिंघ

Swayamsiddha

Self-reliant



॥ 36 ॥

કુટુંબીજનો સાથે રહીને વિવાદ ન કરવો.
પરિવારજનોં કે સાથ રહકર વિવાદ મત કરના।
Do not dispute with family members
while staying together.

सમાજપ્રિય

सમાજપ્રિય

Samaajpriya

Soul admirer

| 37 |

ગૃહિત મિથ્યાત્વના પોખરાથી ભચવું.

ગૃહિત મિથ્યાત્વ કે પોષણ સે બચના।

Save yourself from the influences of false belief.

સત્સાવધાન

सत્સાવધાન

Satsaavdhaan

Cautious of the Soul



| 38 |

આવેશમાં કોઈ પગલું ભરવું નહીં.

આવેશ મેં કોई કદમ મત ઉઠાના।

Do not take impulsive actions.

ધીર

धીર

Dheer

Patient



॥ 39 ॥

ગુરુદેવની બદનામી થાય, એવું કોઈ કામ કરવું નહીં.
ગુરુદેવ કી બદનામી હો, એસા કોઈ કામ મત કરના।
Do not act in a way that defames Gurudev.

અસંગી

असंगी

Asangi

Unaccompanied



॥ 40 ॥

ઉઠ્યા બાદ ક્ષણિકનો બોધ પાઠ કરવો.
ઉઠને કે બાદ ક્ષણિક કા બોધ પાઠ કરના।
Chant the “Wisdom of the Transient” mantra
upon waking up.

અસુશૂન્ય

असुशून्य

Asu-shunya

Beyond space

॥ 41 ॥

સૂતા પહેલા ક્ષણિકનો બોધ પાઠ કરવો.
સોને સે પહલે ક્ષણિક કા બોધ પાઠ કરના।

Chant the “Wisdom of the Transient” mantra
before sleeping.

સૂર્યકીર્તિ

સૂર્યકીર્તિ

Suryakeerti

Shining sun



॥ 42 ॥

આત્માર્થી થવું.
આત્માર્થી હોના।

Be a Soul seeker.

સવરૂપપ્રેમી

સવરૂપપ્રેમી

Svarup-premi

Soul beloved



॥ 43 ॥

કોઈની આપેલી મૌંધીદાટ ભેટો ન સ્વીકારવી.
 કિસી કે દ્વારા દી ગઈ મહંગી ભેંટ સ્વીકાર મત કરના।
 Do not accept exorbitant gifts from anyone.

ફકીર

Fakir

Ascetic



॥ 44 ॥

જે અભક્ષયનું ભક્ષણ પોતે ન કરતા હો,
 તે અભક્ષયનું ભક્ષણ બીજાને પણ ન કરાવવું.
 જિસ અભક્ષય કા ભક્ષણ સ્વયં ન કરતે હો,
 ઉસ અભક્ષય કા ભક્ષણ દૂસરોં કો ભી મત કરાના।

Do not feed others non-edible food
 that you don't eat yourself.

સમાચારી

Samaachaari

Equanimous

દેહ કેવળજ્ઞાનમાં બાધક નથી,
દેહદૃષ્ટિ આત્મજ્ઞાનમાં બાધક છે, દેહદૃષ્ટિ છોડજે.

देह केवलज्ञान में बाधक नहीं है,
देहदृष्टि आत्मज्ञान में बाधक है, देहदृष्टि छोड़ना।

Body does not obstruct Omniscient knowledge,
attachment to the body obstructs Self-realization,
hence renounce such attachment.

દેહાતીત

देहातीत

Dehaateet

Out of body



ધનવાનથી પ્રભાવિત થઈશ નહું.

धनवान से प्रभावित मत होना।

Do not be impressed by the rich.

નિર્મોહી (દર્શનમોહ) નિર્મોહી (दर्शनमोह) Nirmohi (Darshan Moha)

Free from wordly attachment



॥ 47 ॥

ગુરુદેવના વિરહમાં રડવા કરતા પ્રવચનો સાંભળીને સમભાવ રાખજો.
ગુરુદેવ કે વિરહ મેં રોને કી બજાય પ્રવચનો કો સુનકર સમભાવ રખના।

Instead of crying in Gurudev's absence,
listen to discourses and remain in a state of equanimity.

દીપંકર

दीपंकर

Deepankar

One who illuminates the lamp of Knowledge



॥ 48 ॥

શરીરને સજાવવું મડાને સજાવવા જેવું છે.
શરીર કો સજાના મુર્દે કો સજાને તુલ્ય હૈ।

Beautifying the living body is like
beautifying the dead body.

રત્નત્રયસુશોભિત રત્નત્રયસુશોભિત Ratnatraya-sushobhit

Adorned with three gems

॥ 49 ॥

तत्त्वविचार करજे.

तत्त्वविचार करना।

Contemplate on the truth.

विचारक

विचारक

Vichaarak

Contemplator



॥ 50 ॥

आगला समये त्राण लोकना कोई पाण प्रदेश पर रहेवानी तैयारी राखजे.
अगले समय तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी रखना।

Be prepared to reside the next moment
in any space of the universe.

चैतन्यलोकवासी

चैतन्यलोकवासी

Chaitanya-lokvaasi

One who resides in the abode of the Soul



॥ 51 ॥

પોતાનો વ્યવહાર કરવો અને બીજાને ઉદ્ય પર છોડી દેવા.

અપના વ્યવહાર કરના ઔર દૂસરે કો ઉદ્ય પર છોડું દેના।

Perform your own duties and leave the rest to destiny.

સદ્વ્યવહારી

सद્વ्यવહારી

Sadvyavhaari

Appropriately behaved



॥ 52 ॥

પંડિત નહીં, જ્ઞાની થજે.

પંડિત નહીં, જ્ઞાની હોના।

Don't just be educated, be enlightened.

તત્ત્વવેદી

તત્ત્વવેદી

Tattva-vedi

Knower of fundamental principles

॥ 53 ॥

परम पारिणामिक भावनुं चिंतन करौ।

परम पारिणामिक भाव का चिंतन करना।

Contemplate on the unique eternal nature of the Soul
(Param Paarinaamik Bhaav).

परम

परम

Param

Unique



॥ 54 ॥

ज्ञानलक्ष्मी चांदलो करवा आवे, त्यारे भोक्तुं धोवा जर्दश नहीं।

ज्ञानलक्ष्मी तिलक करने आये, तब मुँह धोने मत जाना।

Do not miss the opportunity to attain enlightenment.

लक्ष्मीनारायण

लक्ष्मीनारायण

Lakshmi-narayan

Knowledgeable Soul



ગુરુ થયા પહેલા સાચો શિષ્ય બનજે.

ગુરુ હોને સે પહલે સચ્ચા શિષ્ય બનના।

Be a true disciple before being a preacher.

તત્ત્વાનુગામી **तत्त्वानुगामी** **Tattvaanugaami**

Inward traveller



ગુરુદેવનું શરીર ગુરુદેવ નથી, ગુરુદેવ દ્વારા મળેલું તત્ત્વજ્ઞાન ગુરુદેવ છે.
ગુરુદેવ કા શરીર ગુરુદેવ નહીં હૈ, ગુરુદેવ દ્વારા મિલા તત્ત્વજ્ઞાન ગુરુદેવ હૈ।

Gurudev's body is not Gurudev,
his preaching on the Soul is the real Gurudev.

જ્ઞાનવિલાસી **ज्ञानविलासी** **Gyaanvilaasi**

Indulgent knower

ગુરુના ગુરુ થવાનો પ્રયાસ ક્યારેય કરીશ નહીં.

ગુરુ કે ગુરુ હોને કા પ્રયાસ કભી મત કરના।

Do not try to be the enlightened mentor's mentor.

લધુરાજ

लધુરાજ

Laghuraaj

Down to earth



મંદકખાયી જીવ સિવાય કોઈ સાથે ધર્મની ચર્ચા કરવી નહીં.

મંદ કષાયી જીવ કે અતિરિક્ત કિસી કે સાથ ધર્મ કી ચર્ચા મત કરના।

Do not discuss spirituality
except with people with reduced passions.

ઉપશાંતવાદી

ઉપશાંતવાદી

Upshantvaadi

One with weakened passions



॥ 59 ॥

ગુરુ સમક્ષ બોલવા કરતા ગુરુનું સાંભળવું વધુ હિતકારી નીવડશે.
ગુરુ સમક્ષ બોલને કી બજાય ગુરુ કા સુનના અધિક હિતકારી હોગા।
It is more beneficial to listen to the enlightened mentor
than to speak to him.

દિવ્યશ્રુતિ

दिव्यश्रुति

Divya-shruti

Listener of divine preaching



॥ 60 ॥

કુટુંબીજનોને ભૂખ્યા રાખી પ્રવચન સાંભળીશ નહીં.
પરિવારજનોં કો ભૂખે રખકર પ્રવચન મત સુનના।

Do not keep family members hungry
and listen to discourses.

પરિવારપ્રેમી

પરિવારપ્રેમી

Parivar-premi

Soul's attribute admirer

પ્રયોજન વિના વ્યર્થમાં રખડપણી કરીશ નહીં.

પ્રયોજન કે બિના વ્યર્થ મેં મત ભટકના।

Do not loiter anywhere without a purpose.

અચલપ્રગણ

अचलप्रगति

Achalpragyā

Steady in Knowledge



પૈસાથી નહીં, પણ પુણ્યોદયથી ભોજન મળે છે,
એ વાત અવશ્ય યાદ રાખજે.

પૈસે સે નહીં, પરન્તુ પુણ્યોદય સે ભોજન મિલતા હૈ,
યહ બાત અવશ્ય યાદ રખના।

Do remember, one gets food
due to fruition of auspicious karma, not due to money.

ઉદયપ્રયોગી

उदયપ્રયોગી

Udayprayogi

Observer of fruition of karma



॥ 63 ॥

વિકાર વધે, એવું ભોજન કરવું નહીં.

વિકાર બઢે, એસા ભોજન મત કરના।

Do not eat food that increases impure feelings.

નિર્વિકલ્પભોજી Nirvikalpbhoji

Enjoyer of unperturbed state



॥ 64 ॥

જ્ઞાનીઓના દૃષ્ટાંત લઈને સ્વચ્છંદી થઈશ નહીં.

જ્ઞાનિયોं કે દૃષ્ટાંત લેકર સ્વચ્છંદી મત હોના।

Do not be self-conceited
by merely taking examples of enlightened beings.

સદગુરુદીપ Sadgurudeep

Mentor's illuminated lamp of Knowledge

॥ 65 ॥

भीरां मात्र कृष्ण माटे नाची हती, आखा जगत माटे नहीं।
मीरा मात्र कृष्ण के लिए नाची थी, सारे जगत के लिए नहीं।

Meera danced in devotion for Krishna only,
not for the whole world.

सिंधपुरवासी Siddhapurwasi

Resident of abode of liberation



॥ 66 ॥

भूमि ताराथी छे, तू भूमिथी नथी,
तेथी जे भूमि पर रहे, ते भूमिने पावन कराऐ।

भूमि तुम्हारे से है, तुम भूमि से नहीं हो,
इसलिए जिस भूमि पर रहो, उस भूमि को पावन करना।

Land is because of you, you are not because of the land,
therefore, on whichever land you stay
make the land sacred.

सुवर्णभूमि Suvarnabhumi

One who graces land



| 67 |

જ્ઞાનતીર્થની યાત્રા કરજે.

જ્ઞાનતીર્થ કી યાત્રા કરના।

Journey on the pilgrimage of knowledge.

જ્ઞાનતીર્થયાત્રી

જ્ઞાનતીર્થયાત્રી

Gyaanteerth-yaatri

Pilgrim on the journey of knowledge



| 68 |

દ્વેક સાંસારિક સંબંધ વચ્ચે મર્યાદા રાખજે.

પ્રત્યેક સાંસારિક સંબંધ કે બીચ મર્યાદા રખના।

Maintain limits between all worldly relations.

સીમંધર

સીમંધર

Seemandhar

Self-engrossed

॥ 69 ॥

શરીરને હાનિકારક ભોજન કરીશ નહીં।

શરીર કો હાનિકારક ભોજન મત કરના।

Do not eat food that harms the body.

આનંદભોજુ

આનંદભોજી

Anand-bhoji

Enjoyer of supreme bliss



॥ 70 ॥

કખાયનું દમન ન થાય, તેથી મન ફાવે તેમ ભોગોને ભોગવીશ નહીં।

કષાય કા દમન ન હો, ઇસલિએ મન ચાહે ભોગોં કો મત ભોગના।

Do not freely enjoy material objects

to avoid suppressing passions.

નિર્મોહી (ચારિત્રમોહ)

નિર્મોહી (ચારિત્રમોહ)

Nirmohi (Chaaritra Moha)

One with dissolved passions



॥ 71 ॥

भावुकतामां कोई परालुं लेवुं नहीं।

भावुकता में कोई कदम मत उठाना।

Do not take any actions in an emotional state.

निर्मलसागर

निर्मलसागर

Nirmalsaagar

Pure ocean of knowledge



॥ 72 ॥

शब्दोने नहीं, शब्दोना भावोने ग्रहण करवा।

शब्दों को नहीं, शब्दों के भावों को ग्रहण करना।

Absorb the essence of words not just mere words.

स्वरूपग्राही

स्वरूपग्राही

Svarup-graahi

Imbiber of Soul's nature

| 73 |

કબજ્જુયાત થાય એવું ભોજન કરવું નહીં.

કબજ હો ઐસા ભોજન મત કરના।

Do not consume food that causes constipation.

પાડોશીપાર

પડોસીપાર

Padosi-paar

Beyond the Ashwall



| 74 |

પાપ કરનારને પણ પરમાત્મ દ્રષ્ટિએ દેખજો.

પાપ કરને વાળે કો ભી પરમાત્મ દ્રષ્ટિ સે દેખના।

See the sinner too as God.

સાદ્ગ્યાનગ્રાહી

સદ્ગ્યાનગ્રાહી

Sadgyaan-graahi

Imbiber of right knowledge



भगवान पासे भोगोनी भीख मांगीश नहीं।
 भगवान के पास भोगों की भीख मत मांगना।
 Do not beg for worldly pleasures to God.

परमेश्वरप्रेमी परमेश्वरप्रेमी Parmeshwar-premi

Admirer of God



वीतरागी शासननो झंडो तमारा हाथमां सोपीने गुरुदेव विदाय ले छे।
 वीतरागी शासन का झंडा तुम्हारे हाथ में सौंपकर गुरुदेव विदा होते हैं।

In the form of a symbolic flag,
 Gurudev hands over the preaching of omniscient Gods
 to you while he leaves.

मोहजयी (चारित्रमोह) मोहजयी (चारित्रमोह) Moha-jayee (Chaaritra Moha)

Winner of conduct deluding karma

समाधि मरणनी भावना भावजे।

समाधि मरण की भावना भाना।

Have a wish to leave the body in the meditative state.

समाधिप्रग्ना

समाधिप्रग्ना

Samaadhi-pragya

Knower of meditative state



अनंत भव पर अर्थे वेदक्षया छे, एक भव निज अर्थे गाणजे।
अनंत भव पर हेतु बर्बाद किये हैं, एक भव निज हेतु उपयोग करना।

Infinite lives have been wasted on the non-self.

Utilize this one life for your own Soul.

स्वार्थी

स्वार्थी

Svaarthi

One with focus on the Soul



॥ 79 ॥

કોઈપણ વ્યક્તિ તારી સલાહ ન માંગે, તો ખોટું લગાડીશ નહીં.
કોઈ ભી વ્યક્તિ તુમ્હારી સલાહ ન માંગે, તો બુરા મત લગાના।

Do not feel bad if no one asks for your advice.

મુઠતવિહારી

મુક્તતવિહારી

Mukta-vihaari

Freedom flyer



॥ 80 ॥

તારા કરેલા કાર્યની નિંદા કે પ્રશંસા થાય, તો સ્વરૂપની જાગૃતિ રાખજે.
તેરે દ્વારા કિયે ગए કાર્ય કી નિંદા યા પ્રશંસા હો,
તો સ્વરૂપ કી જાગૃતિ રખના।

Remain in Soul awareness,
when work done by you is praised or criticised.

સમશ્રેણીસિદ્ધ

સમશ્રેણીસિદ્ધ

Samshreni-siddha

Aspirant to be equal to liberated Souls

गुरुनो यथार्थ विनय करीने नाम रोशन करजे।

गुरु का यथार्थ विनय करके नाम रोशन करना।

Respect Gurudev truly and make his name shine.

अनामी

अनामी

Anaami

Undefined



जन्मदिवस भोग भोगवीने उज्जवला करता आत्म साधना करीने उज्जवजे।

जन्मदिन भोग भोगकर मनाने की बजाय आत्म साधना करके मनाना।

Celebrate birthday by illuminating the Soul
instead of enjoying the material world.

दूजाचंद

दूजाचंद

Dujaachand

Illuminating moon of Knowledge



॥ 83 ॥

विचार वैश्विक कक्षाना अने वर्तन स्थानिक कक्षानुं राखजे।
विचार वैश्विक कक्षा के और वर्तन स्थानीय कक्षा का रखना।
Think globally and act locally.

विश्वविजेता Vishwa-vijeta

Victor of the world



॥ 84 ॥

अशाकाहारी नामना शाकाहारी पदार्थोनुं भक्षण करवुं नहीं।
अशाकाहारी नाम के शाकाहारी पदार्थों का भक्षण मत करना।

Do not consume vegetarian dishes
that have non-vegetarian names.

क्षुधामुक्त Kshudhaa-mukta

Free from hunger

॥ 85 ॥

नानी रकम माटे कंजूस बनीश नहीं।

छोटी रकम के लिए कंजूस मत बनना।

Do not be a miser for small amounts.

दरियादिल

दरियादिल

Dariyaa-dil

Ocean of generosity



॥ 86 ॥

पुढगलना कारणे ज्वने पीड़ा पहोचाईश नहीं।

पुढगल के कारण जीव को पीड़ा मत पहुँचाना।

Do not harm Souls due to matter.

आनंददाता

आनंददाता

Anand-daata

One who shares bliss



॥ 87 ॥

આ ક્ષાળને આત્માનંદ વડે ભરપૂર ભોગવી લે.

ઇસ ક્ષણ કો આત્માનંદ દ્વારા ભરપૂર ભોગ લે।

Enjoy the present moment completely with Soul's bliss.

તત્કષણજીવી

तत्क्षणजीवी

Tatkshan-jivi

Alive in the present moment



॥ 88 ॥

અનેક અપેક્ષાએ વસ્તુ સ્વરૂપનો વિચાર કરજે.

અનેક અપેક્ષા સે વસ્તુ સ્વરૂપ કા વિચાર કરના।

Contemplate on the nature of the substance
from multiple viewpoints.

નયાચક્રવર્તી

નયાચક્રવર્તી

Naya-chakravarti

King of multiple viewpoints

॥ 89 ॥

મળ-મૂત્ર વિસર્જન કરતી વેળાએ પણ
સ્વરૂપનું ચિંતન કરવામાં કોઈ દોષ નથી.

મળ-મૂત્ર વિસર્જન કરતી બેલા મેં ભી
સ્વરૂપ કા ચિંતન કરને મેં કોई દોષ નહીં હૈ।

It is not a sin to contemplate on the Soul
even whilst passing urine and stools.

નિર્લેપ

નિર્લેપ

Nirlep

Detached from the world



॥ 90 ॥

જે સંયોગ મળ્યા છે, તે મારા જ ભૂતકાળના ભાવોનું દર્પણ છે.
જો સંયોગ મિલે હૈનું, વે મેરે હી ભૂતકાળ કે ભાવોં કા દર્પણ હૈનું।

All surrounding circumstances are a mirror
of my own past feelings.

જ્ઞાનસાક્ષી

જ્ઞાનસાક્ષી

Gyaan-saakshi

Observer of knowledge



॥ 91 ॥

सारा भाव आवे तो तात्कालिक काम करजे.

अच्छे भाव आये तो तात्कालिक काम करना।

Act promptly when auspicious feelings arise.

तत्कालप्रयोगी तत्कालप्रयोगी **Tatkaal-prayogi**

One who practices in the present moment



॥ 92 ॥

भराब भाव आवे तो कामने पाइण धकेलजे.

बुरे भाव आये तो काम को विलम्ब करना।

Postpone the action when inauspicious feelings arise.

विकल्पविमुक्त विकल्पविमुक्त **Vikalp-vimukta**

Free from thoughts

॥ 93 ॥

विश्वासमां विषनो वास छे.
विश्वास में विष का वास है।
Poison resides in trust.

शिववासी

शिववासी

Shiv-wasi

Soul dweller



॥ 94 ॥

गुरुदेव प्रत्ये रहेली श्रद्धा भाउर व्यक्त थया बिना रहेशे नहीं,
चिंता करीशा नहीं।
गुरुदेव के प्रति रही श्रद्धा बाहर व्यक्त हुए बिना रहेगी नहीं,
चिंता मत करना।

Faith in Gurudev will not remain unexpressed,
do not worry.

कृतज्ञ

कृतज्ञ

Krutagya

Grateful



॥ 95 ॥

જાણકાર નહીં, સમજદાર થજે.

જ્ઞાનવાન નહીં, સમજ્ઞવાન હોના।

Be understanding, not just knowledgeable.

સમજવાન

समज्ञवान

Samajhvaan

Understanding



॥ 96 ॥

ભોગોના કાળે શરીરને ફેકવાનું નથી,
ભેદવિજ્ઞાન વડે ભોગોથી અલિપ્ત રહેજે.

ભોગોं કे કાલ મેં શરીર કો ફેંકના નહીં હૈ,
ભેદવિજ્ઞાન દ્વારા ભોગોં સે અલિપ્ત રહના।

Body is not to be thrown during pleasures,
be unaffected by separation between Soul and body.

ભોગાલિપ્ત

ભોગાલિપ્ત

Bhogaalipta

Detached from pleasures

તू कर्मना उदयथी नाचती कठपूतली नथी,
पण कठपूतलीनो ज्ञाता छो.

तुम कर्म के उदय से नाचने वाली कठपुतली नहीं हो,
पर कठपुतली के ज्ञाता हो।

You are not a dancing puppet due to fruition of karma,
but the knower of the puppet.

सच्चिदानन्द

सच्चिदानन्द

Sachchidaanand

Soul full of knowledge and bliss



कोईनी निंदा करवी नहीं अने कोईनी निंदा सांभળवी नहीं।

किसी की निंदा मत करना और किसी की निंदा मत सुनना।

Neither criticise nor listen to anyone's criticism.

द्रष्टिमुक्त

द्रष्टिमुक्त

Drashti-mukta

Liberated in vision



॥ 99 ॥

ભૂતકાળના ભોગોનું સ્મરણ કરવું નહીં।

ભૂતકાળ કે ભોગોं કા સ્મરણ મત કરના।

Do not remember pleasures enjoyed in the past.

અભૂતપૂર્વ

अभूतपूर्व

Abhootpoorva

Unprecedented



॥ 100 ॥

પોતાના પરિપૂર્ણ સ્વરૂપનું વિસ્મરણ થાય નહીં, જાગૃતિ રાખવી।

અપને પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ કા વિસ્મરણ ન હો, જાગૃતિ રખના।

Maintain awareness to not forget that your own self is complete.

પરિપૂર્ણ

परिपूर्ण

Paripoorna

Complete

પુદ્ગાલ કોઈનું થયું નથી અને કોઈનું થવાનું પણ નથી,
તેથી તેની પકડ છોડવી.

પુદ્ગાલ કિસી કા હુआ નહીં હૈ ઔર કિસી કા હોને વાલા ભી નહીં હૈન,
અતઃ ઉસકી પકડ છોડના।

Matter has not belonged to anyone and never will,
so renounce its attachment.

વિઠલપશૂન્ય

વિંકલપશૂન્ય

Vikalp-shunya

Free from perturbed thought



પ્રવચન સાંભળીને તેને વાગ્પોળજે.

પ્રવચન સુનકર ઉસકી જુગાલી કરના।

Listen to a discourse and ruminate on it.

ચિંતનશીલ

ચિંતનશીલ

Chintan-sheel

One who ponders about the Soul



ગુરુદેવના વિરહ બાદ પણ પૂર્વવત્ત સાધના કરજે.

ગુરુદેવ કે વિરહ બાદ ભી પૂર્વવત્ત સાધના કરના।

Continue efforts to illuminate the Soul
even after Gurudev's demise.

ચैતन्यજ્યોતि | **Chaitanya-jyoti**

Flame of Knowledge



શરીર ટકીને રહેતું નથી અને
શરીરનું નામ પણ ટકીને રહેતું નથી, અની જાગૃતિ રાખજે.

शरीर ટિકકર રહતા નહीं है और
शરीर का નામ ભी ટિકકર રહતા નહीं है, उसकी જાગૃતિ રખના।
Neither the body nor the name of the body exists forever,
be aware of it.

અશરીરી

अशरीरी

Ashariri

Free from the body

| 105 |

જાતિના ભેદભાવમાં અટકીશા નહોં.

જાતિ કે ભેદભાવ મેં મત અટકના।

Do not get stuck in racial discrimination.

અતીન્દ્રિય

Atteendriya

Ateendriya

Beyond the senses



| 106 |

શંકા કરજે, પ્રશ્ન નહોં.

શંકા કરના, પ્રશ્ન નહોં।

Ask doubts, not questions.

જિગ્યાસુ

Jigyaasu

Curious



સમાધાન મેળવજે, ઉત્તર નહીં।

સમાધાન પાના, ઉત્તર નહીં।

Attain solutions, not answers.

સમાધિસ્થિત

समाधिस्थित

Samaadhi-sthit

One who meditates on the Soul



એક ૬૦૮માં વારો આવી ગયો છે,
બીજા ૬૦૮માં વારો આવે, એવું જીવન જીવજે.

एक ६०८ में अवसर आ गया है,
दूसरे ६०८ में अवसर आये, ऐसा जीवन जीना।

Your turn has come the first 608,
live life in a way that you get a turn in the second 608.

પુરુષાર્થી

पुરुषાર્થી

Purushaarthi

One who puts in effort for the Soul

॥ 109 ॥

જ્ઞેય-જ્ઞેય જ્ઞાનને જાણજો.

જ્ઞેય-જ્ઞેય મેં જ્ઞાન કો જાનના।

Know the nature of the knowledge
while knowing each object.

જ્ઞાનવેદી

જ્ઞાનવેદી

Gyaan-vedi

Realizor of Knowledge



॥ 110 ॥

ગુરુદેવની અંતિમયાત્રા સિદ્ધગતિ છે, એમ માનજો.

ગુરુદેવ કી અંતિમ યાત્રા સિદ્ધગતિ હૈ, એસા માનના।

Believe that Gurudev's last journey is liberation.

શિવગામી

શિવગામી

Shiv-gaami

Traveller of liberation



स्वरूपनुं ध्यान धरीने जलदी-जलदी सिद्धशिला पर आगमन करें।

स्वरूप का ध्यान धर कर जलदी-जलदी सिद्धशिला पर आगमन करना।

Arrive at the topmost part of the abode of liberation
(Siddha-shila) very soon by meditating on the Soul.

स्वरूपध्यानी

स्वरूपध्यानी

Svarup-dhyaani

One who meditates on the nature of the Self



वात्सल्यमां वासना न भणे, ऐनी जागृति राखें।

वात्सल्य में वासना न मिले, उसकी जागृति रखना।

Be aware that lust does not get mixed with love.

अमृतबोधी

अमृतबोधी

Amrut-bodhi

Divine preacher

અખંડ જ્ઞાનનો આશ્રય લઈને બુદ્ધિથી પાર થજે.
અખંડ જ્ઞાન કા આશ્રય લેકર બુદ્ધિ સે પાર હોના।

Go beyond wisdom
by meditating on indivisible knowledge.

જીવનમુક્ત

જીવનમુક્ત

Jeevan-mukta

Alive yet liberated



જિંદગી એક સપનું છે, મૃત્યુ છે સપનાનું છૂટી જવું.
જિંદગી એક સપના હૈ, મૃત્યુ હૈ સપને કા છૂટ જાના।
Life is a dream, death is the end of the dream.

આત્મજાગૃત

આત્મજાગૃત

Atma-jaagrut

Aware of the Soul



જિંદગીનું સપનું છૂટી જાય, એની પહેલા જાગી જજે.
જિંદગી કા સપના છૂટ જાયે, ઉસસે પહલે જાગ જાના।

Awaken before the dream of life ends.

જીવનજ્ઞાત

જીવનજાગૃત

Jeevan-jaagrut

Aware of Knowledge



બુદ્ધિ નહીં, બુદ્ધ મહાન છે.
बुद्धि नहीं, बुद्ध महान है।

The Soul is great, not the wisdom.

બુદ્ધ

बुद्ध

Buddha

Full of knowledge

વાણીમાં વ્યવહાર અને શ્રદ્ધામાં નિશ્ચય રાખજો.
વાળી મેં વ્યવહાર ઔર શ્રદ્ધા મેં નિશ્ચય રખના।

Practical viewpoint is to speak
and theoretical viewpoint is to believe.

શ્રીસુશોભિત | **શ્રીસુશોભિત** | **Shree-sushobhit**

Adorned with knowledge



ભલે અત્યારે મોક્ષ નથી, પણ મોક્ષની ભાવના રાખજો.
ભલે અભી મોક્ષ નહીં હૈ, મગર મોક્ષ કી ભાવના રખના।

Although there is no liberation at present,
always retain the wish to attain liberation.

મુમુક્ષુ

મુમુક્ષુ

Mumukshu

One who desires liberation



કોઈ પણ પ્રકારની દેહની અવસ્�ાના કારણે નિરાશ થઈશ નહીં.
કિસી ભી પ્રકાર કી દેહ કી અવસ્થા કે કારણ નિરાશ મત હોના।

Do not be disappointed due to any state of the body.

ઉદાસીન

उદાસીન

Udaaseen

One at the top



ગુરુના ઉપકારને ક્યારેય ભૂલીશ નહીં.
ગુરુ કે ઉપકાર કો કભી મત ભૂલના।

Do not ever forget the obligation of a mentor.

અનુગૃહિત

અનુગૃહીત

Anugruhit

Obliged

संसारनुं स्वार्थी स्वरूप देखाता याद करजे के ‘आम ज होय.’
संसार का स्वार्थी स्वरूप दिखने पर याद करना कि ‘स्वरूप ही ऐसा है।’

Whenever you see the selfish nature of the world,
remember ‘All is fair’

स्वरूपज्ञानी

स्वरूपज्ञानी

Svarup-gyaani

Knower of the nature of the Self



जगत सोनाथी मढ़ाय, तो पाण ‘तेथी भारे शुं?’
जगत सोने से मढ़ा जाये, तो भी ‘उससे मुझे क्या?’
Even if the world is gold plated, ‘so what?’

स्वरूपानन्दी

स्वरूपानन्दी

Svarupaanandi

Enjoyer of the nature of the Self



॥ 123 ॥

કોર્ટ કચેરીમાં જવું પડે, એવું કામ કરીશા નહીં.

કોર્ટ કચહરી મેં જાના પડે, એસા કામ મત કરના।

Do not do deeds that cause you to be prosecuted.

સિદ્ધપુરગામી

सिद्धपुરगामी

Siddhapur-gaami

Journeyer of liberation



॥ 124 ॥

ગુરુને આખું જગત અર્પણ કરે, તો પણ ઓછું છે.

ગુરુ કો સારા જગત અર્પણ કરે, તો ભી કમ હૈ।

Even if you offer the whole world to the mentor,
it is still less.

સર્વજ્ઞ

સર્વજ્ઞ

Sarvagya

Omniscient

ધન ખર્ચતા સમૃદ્ધિ મળે છે, સુખ નહીં.

ધન ખર્ચતે સમૃદ્ધિ મિલતી હૈ, સુખ નહીં।

Material objects can be bought by money, not inner bliss.

સુખી

સુખી

Sukhi

Blissful



પોતાનો ખર્ચ પોતાની કમાણી પ્રમાણે કરજે.

અપના ખર્ચ અપની કમાઈ અનુસાર કરના।

Spend as per your earnings.

કર્ણવીર

કર્ણવીર

Karna-veer

One who is smart with finances



દરેક વस્તુને ધન સાથે સરખામણી કરીને માપીશ નહીં.

પ્રત્યેક વસ્તુ કો ધન કે સાથ તુલના કરકે મત નાપના।

Do not measure everything on the scale of wealth.

હાર્ડિક

હાર્ડિક

Haardik

Hearty



સંતાનોને જન્મ આપનાર હું નથી,
તેઓ તેમના પોતાના ઉદ્યથી જન્મ્યા છે.

સંતાનોં કો જન્મ દેને વાલી મૈં નહીં હું
વે ઉનકે સ્વયં કે ઉદ્ય સે જન્મે હું।

I am not the giver of birth to children,
they are born due to fruition of their own karma.

પર્યાયપાર

પર્યાયપાર

Paryaay-paar

Beyond modifications

પુદ્ગલના રૂપ પર મોહિત થઈશ નહીં.

પુદ્ગલ કે રૂપ પર મોહિત મત હોના।

Do not get mesmerised by the form of matter.

રૂપાતીત

रूपातीत

Rupaateet

Beyond beauty



દરેક ઘટનામાં પોતાના ચૈતન્ય સ્વરૂપની જાગૃતિ રાખજો.

પ્રત્યેક ઘટના મેં અપને ચૈતન્ય સ્વરૂપ કી જાગૃતિ રખના।

Be aware of the nature of the Soul during all incidents.

હોનહારહોશી

હોનહારહોશી

Honhaar-hoshi

Aware during all incidents



कोई व्यक्ति के वस्तुना वियोगमां
क्रमबद्ध पर्यायनो सिद्धांत याद करजे।

कोई व्यक्ति या वस्तु के वियोग में
क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत याद करना।

Remember the doctrine of fixed destiny
during the parting of any person or object.

सिद्धांतवादी Siddhaant-vaadi

Principled



गुरुदेव ज्ञान आपे छे, श्रद्धा नहीं, तत्त्वनी श्रद्धानी थजे।
गुरुदेव ज्ञान देते हैं, श्रद्धा नहीं, तत्त्व की श्रद्धानी होना।

Gurudev gives knowledge, not belief,
be the truth believer.

सत्श्रद्धानी Sat-shraddhaani

True believer

ગુરુદેવની વૈયાવચ્ચ કરીને ગુરુના ભરણ કાળે
સમાધિમરણમાં નિમિત્ત થજે.

ગુરુદેવ કી વૈયાવચ્ચ કરકે ગુરુ કે મરણ કાલ પર
સમાધિમરણ મેં નિમિત્ત હોના।

Serve Gurudev and be the instrumental cause
for his meditative state during his death.

સેવાભાવી

સેવાભાવી

Sevaabhaavi

Mentor's caretaker



જો ઈસુ, તૂ અને હું એક જ છીએ.
જો ઇસુ, તૂ ઔર મૈં એક હી હૈ।

'JO' 'ESU' 'U' and 'I' are same.

સમદ્રષ્ટી

સમદૃષ્ટી

Sam-drashti

Neutral



દરેક જીવને વાત્સલ્ય આપજો અને મુક્તિની ભાવના ભાવજો.
પ્રત્યેક જીવ કો વાત્સલ્ય દેના ઔર મુક્તિ કી ભાવના ભાના।

Give love to everyone and wish liberation for all.

વાત્સલ

વાત્સલ

Vatsal

Affectionate



દેહ છૂટે ત્યારે એક પણ શત્રુ ન હોવો જોઈએ.
દેહ છૂટે તબ એક ભી શત્રુ નહીં હોના ચાહિએ।

No one should be your enemy at the time of death.

વીતરાગી

વીતરાગી

Veetraagi

Free from impure feelings

॥ 137 ॥

सेवा धर्म नथी.

सेवा धर्म नहीं है।

Serving is not religion.

सुधर्मी

सुधर्मी

Sudharmi

Truly religious



॥ 138 ॥

भूख्या पेटे धर्म थतो नथी, विकल्पने टाणवा माटे भोजन करी लेजे।
भूखे पेट धर्म नहीं होता है, विकल्प को टालने के लिए भोजन कर लेना।

One cannot practice religion on an empty stomach,
therefore eat appropriately to avoid perturbed thoughts.

सहज

सहज

Sahaj

Spontaneous



॥ 139 ॥

વાસના પ્રેમને ધોઈ નાખે છે.
વાસના પ્રેમ કો ધો ડાલતી હૈ।
Lust washes away love.

સવરૂપવાસી Svarup-vaasi

Immersed in Soul's nature



॥ 140 ॥

મરણ કાળે મૌન ધારણ કરજે.
મરણ સમય મૌન ધારણ કરના।

Observe silence at the time of death.

મૌની

મૌની

Mouni

Silent

મરવાના લક્ષ્યે જીવજે અને જીવવાના લક્ષ્યે મરજે.
મરને કે લક્ષ્ય સે જીના ઔર જીને કે લક્ષ્ય સે મરના।

Live with awareness of death
and die in the awareness of eternal life.

અરિહંત

अरिहंत

Arihant

Destroyer of Soul's enemies



જ્ઞાનદીપક ! તને સિદ્ધાલયમાં મુળવાનું વચન આપું છું,
પુરુષાર્થ કર અને આવ.

જ્ઞાન દીપક ! તુમ્હેં સિદ્ધાલય મેં મિલને કા વચન દેતા હું
પુરુષાર્થ કર ઔર આ।

Gyaan Deepak ! I promise you,
I shall meet you at the abode of liberated Souls,
put in effort and come.

સિદ્ધ

सिद्ध

Siddha

Liberated Soul





Cover Page Introduction | મુખપૃષ્ઠ પરિચય | મુખપૃષ્ઠ પરિચય

Just like the enlightened being's body is close to the tree yet distant from it, similarly, he lives in the body but is distant from it. Just like non-illuminated lamps get illuminated when in the proximity of an illuminated lamp, ignorant souls shall be enlightened too in the proximity of an enlightened Soul. Oh! Just like a lamp, the Soul too has the nature to illuminate the self and non-self.

जैसे ज्ञानी का शरीर वृक्ष के निकट होने पर भी वृक्ष से अछूता है, ऐसे ही ज्ञानी देह में रहकर भी देह से अस्पर्शी होते हैं। जैसे प्रज्वलित दीपक की संगति से अप्रज्वलित दीपक भी प्रज्वलित हो जाते हैं, ऐसे ही ज्ञानी की संगति से अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाते हैं। अहो ! दीपक की तरह आत्मा भी स्व-पर प्रकाशक स्वभावी हैं।


જेम જ્ઞાનીનું શરીર વृક્ષની નજીક હોવા છતાં પણ વृક્ષથી અલગ છે, તેમ જ્ઞાની શરીરમાં રહીને પણ શરીરથી અસ્પર્શી હોય છે। જેમ પ્રજ્વલિત દીપકની સંગતિથી અપ્રજ્વલિત દીપક પણ પ્રજ્વલિત થઈ જાય છે, તેમ જ્ઞાનીની સંગતિથી અજ્ઞાની પણ જ્ઞાની થઈ જાય છે। અહો ! દીપકની જેમ આત્મા પણ સ્વ-પર પ્રકાશક સ્વભાવી છે।



Each Soul has the potential to attain Self-realization and manifest supreme inner bliss. Fulchand aspires to mentor 142 Souls to illuminate their lamps of knowledge. You are welcome to Adhyatmik Sadhana Kendra, Umarala to take this invaluable and once in a lifetime opportunity to begin your journey towards illuminating your own lamp of knowledge.

प्रत्येक आत्मा में आत्मानुभूति एवं अतीनिद्रिय आनंद प्रकट करने का सामर्थ्य है। फूलचंद भावना भाते हैं कि उनके इस पृथ्वी से अलविदा होने से पहले १४२ ज्ञानदीपक प्रज्वलित हों। जीवन के इस अपूर्व एवं अमूल्य अवसर का लाभ लेकर आपकी ज्ञानदीपक प्रज्वलन आत्म साधना का शुभारंभ करने हेतु आध्यात्मिक साधना केन्द्र, उमराला में आपका स्वागत है।

प्रत्येक आत्मामां आत्मानुभूति तथा अतीनिद्रिय आनंद प्रगट करवानुं सामर्थ्य छे। फूलचंद भावना भावे छे के तेमना आ पृथ्वीथी अलविदा थया पहुला १४२ ज्ञानदीपक प्रज्वलित थाय। जीवनना आ अपूर्व तेमજ अमूल्य अवसरनो लाभ लઈने आपनी ज्ञानदीपक प्रज्वलन आत्मसाधनानो शुभारंभ करवा हेतु आध्यात्मिक साधना केन्द्र, उमराला मां आपनुं स्वागत छे।



Fulchand received a divine message at midnight on 27th Feb, 2017 while in Kuwait, the 112th country of the Atma Siddhi Shastra Mission. In just one sitting, he transcribed divine knowledge in 1 hour and 42 mins. The composition of '142 Gyaan Deepak ! Bodhamruti' was completed at 1:42 AM which shall help illuminate the lamp of Knowledge.

आत्मसिद्धि शास्त्र भिशन में ११२ वें देश की यात्रा के दौरान कुवैत में २७ फरवरी, २०१७ की मध्यरात्रि में फूलचंद को परम संदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने १ घण्टा और ४२ मिनट में सिर्फ एक ही बैठक में परम श्रुतज्ञान को लिपिबद्ध किया। 'ज्ञान दीपक ! बोधामृत' की रचना रात्रि में १ बजकर ४२ मिनट पर पूर्ण हुई, जो कि ज्ञान दीपक प्रज्वलन के लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

आत्मसिद्धि शास्त्र भिशनमां ११२ मा देशनी यात्रा दरभियान कुवैतमां २७ फेब्रुआरी, २०१७ नी मध्यरात्रि अे फूलचंदने परम संदेश माप्त थयो। तेमाणे १ कलाक अने ४२ भिनिटमां मात्र एक ज बैठकमां परम श्रुतज्ञान लिपिबद्ध कर्यु। 'ज्ञान दीपक ! बोधामृत' नी रचना रात्रे १ कलाक ४२ भिनिटे पूर्ण थઈ, के जे ज्ञान दीपक प्रज्वलन माटे अत्यंत उपयोगी सिद्ध थशे।